

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 01.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

अपराधिक मानव वध के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 108 / 19 धारा 147 /148 / 323 / 504 / 506 / 304 / 120(B) भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता – 1 – रोशन साहनी पुत्र मँगरु 2 – गोरे उर्फ ब्रह्मदेव उर्फ सूरज पुत्र दूधनाथ निषाद निवासीगण जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

उपरोक्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी के पश्चात उक्त मुकदमे मे वांछित अभियुक्त नाम पता गनपत पुत्र मँगरु निवासी जमोहरा थाना मेहदावल द्वारा पुलिस के भय से माननीय न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त नाम पता – 1 – श्रीकृष्ण पुत्र स्व0 विसम्भर निवासी काटा मान 2 – अरुण कुमार पुत्र घनश्याम प्रजापति निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 20 – 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 176 / 19 व 177 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह, का0 मनोज कुशवाहा ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 ने घायलो को पहुचाया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बगहिया के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 2008 से कालर ने दुर्घटना मे दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल हुये व्यक्तियों को पीआरवी से अस्पताल पहुचाया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर घायलो की जान बचाई गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी फूलबदन, आरक्षी चालक राजन प्रसाद ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 79 वाहनो से 16300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 01-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / सदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 79 वाहनो से 16300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 09 अभियुक्त गिरफ्तार –

1- कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



2 - मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 01-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 17 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 49 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।